

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2019 — फाल्गुन 28, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.— पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 5 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(ड) स्थानीय नगरीय निकाय, चिन्हांकित विक्रेताओं में से दस विक्रेताओं, जिनमें से आधी महिलायें होंगी, को सदस्य के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि विक्रेताओं का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि शहर में विभिन्न व्यवसायों और विक्रय जोन को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो;”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ 5-36/2015/18 दिनांक 08-03-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 8th March 2019

NOTIFICATION

No. F 5-36/2015/18.— In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No.7 of 2014), the State Government, hereby, makes the following amendments in Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, -

In rule 5, in sub-rule (2), for Clause (e), The following shall be substituted, namely:-

"(e) The Urban Local Bodies shall elect ten Vendors, half of whom shall be women, as members through an election process from identified vendors:

Provided that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities:

Provided further that the vendors shall be so selected as to represent various trades and vendor zones in the town."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.